

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2024 — श्रावण 9, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-103/2024/18.— छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद् खरसिया, जिला — रायगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. नगर पालिका परिषद् खरसिया को 18 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01	वीर सावरकर वार्ड
02	मदन मोहन गौशाला वार्ड
03	झांसी की रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
04	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
05	शहीद भगत सिंह वार्ड
06	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
07	संत कबीर वार्ड
08	चंदन ताल राममंदिर वार्ड

09	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
10	श्याम मंदिर वार्ड
11	पं.दीनदयाल वार्ड
12	संत कंवर राम वार्ड
13	रानी सती वार्ड
14	महाराणा प्रताप वार्ड
15	छत्रपति शिवाजी वार्ड
16	महाराजा अग्रसेन वार्ड
17	ठाकुरदेव वार्ड
18	महात्मा गांधी वार्ड

नगर पालिका परिषद् खरसिया के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड न. 01 (वीर सावरकर वार्ड)

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | गौशाला तालाब शिव मंदिर से लोकेश्वर भारद्वाज घर तक। |
| पूर्व | — | लोकेश्वर भारद्वाज घर से गोपराम यादव घर तक। |
| दक्षिण | — | गोपराम यादव घर से संतोष शर्मा घर तक। |
| पश्चिम | — | संतोष शर्मा घर से गणेश राम अग्रवाल घर होते हुए गौशाला तालाब शिव मंदिर तक। |

वार्ड न. 02 (मदन मोहन गौशाला वार्ड)

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | राममंदिर से कुर्मिपारा होते हुए गौशाला तक। |
| पूर्व | — | गौशाला से कंकुबाई धर्मशाला होते हुए रामेश्वर सारथी घर तक। |
| दक्षिण | — | रामेश्वर सारथी घर से स्टेशनपारा होते हुए तुहीराम घर तक। |
| पश्चिम | — | तुहीराम घर से प्रभात लाठ घर होते हुए राममंदिर तक। |

वार्ड न. 03 (झांसी की रानी लक्ष्मी बाई वार्ड)

- | | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | नैना वैष्णव घर से ईश्वर राठौर घर होते हुए राधे वर्मा घर तक। |
| पूर्व | — | राधे वर्मा घर से नागामंदिर तक। |
| दक्षिण | — | नागामंदिर से गोवर्धन यादव घर होते हुए चमेली बरेठ घर तक। |
| पश्चिम | — | चमेली बरेठ घर से विष्णु बैरागी एवं असगर अंसारी घर होते हुए नैना वैष्णवघर तक। |

वार्ड न. 04 (डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड)

- | | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | नन्दलाल सहिस घर से लेख राम कुर्रे घर तक। |
| पूर्व | — | लेख राम कुर्रे घर से धर्मेन्द्र साहू घर होते हुए आरती पाण्डेय घर तक। |
| दक्षिण | — | आरती पाण्डेय घर से लीला सारथी घर होते हुए कन्हैया साहू घर तक। |
| पश्चिम | — | कन्हैया साहू घर से मकारु भवन होते हुए नन्दलाल सहिस घर तक। |

वार्ड न. 05 (शहीद भगत सिंह वार्ड)

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | सुलोचना डेनियल घर से सुनील बघेल घर तक। |
| पूर्व | — | सुनील बघेल घर से अनवर मास्टर घर होते हुए सांवरिया कालोनी पीछे शीतला मंदिर तक। |
| दक्षिण | — | शीतला मंदिर से मैनरोड होते हुए मंजीत कोमल घर तक। |
| पश्चिम | — | मंजीत कोमल घर से जवाहर कालोनी होते हुए सुलोचना डेनियल घर तक। |

वार्ड न. 06 (चन्द्रशेखर आजाद वार्ड)

- उत्तर — तेलमिल के बाउंड्रीवाल से एस.डी.एम. आवास के बगल गोदाम तक।
 पूर्व — एस.डी.एम. आवास के बगल गोदाम से आदर्श स्कूल होते हुए देवस्तम्भ चबूतरा तक।
 दक्षिण — देवस्तम्भ चबूतरा से रामेश्वर राठौर घर होते हुए साधना साहू घर तक।
 पश्चिम — साधना साहू घर से रम्भा ट्रेडर्स होते हुए तेल मिल के बाउंड्रीवाल तक।

वार्ड न. 07 (संत कबीर वार्ड)

- उत्तर — तलवा तालाब से मटखनवा तालाब होते हुए शशि राठौर घर तक।
 पूर्व — शशि राठौर घर से जीवन लाल राठौर घर तक।
 दक्षिण — जीवन लाल राठौर घर से विजय राठौर (हालर) घर तक।
 पश्चिम — विजय राठौर (हालर) घर से मंगल बाजार होते हुए तलवा तालाब तक।

वार्ड न. 08 (चंदन ताल राममंदिर वार्ड)

- उत्तर — मोनू राठौर घर से अटल आवास तक।
 पूर्व — अटल आवास से गेंद लाल दुबे घर तक।
 दक्षिण — गेंद लाल दुबे घर से तुरी भाटा होते हुए राठौर चौक तक।
 पश्चिम — राठौर चौक से मोनू राठौर घर तक।

वार्ड न. 09 (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड)

- उत्तर — भरत यादव घर से चन्द्रिका चौहान घर तक।
 पूर्व — चन्द्रिका चौहान घर से बजरंग बली मंदिर होते हुए संतोष सिदार घर तक।
 दक्षिण — संतोष सिदार घर से अशोक राठौर घर तक।
 पश्चिम — अशोक राठौर घर से भरत यादव घर तक।

वार्ड न. 10 (श्याम मंदिर वार्ड)

- उत्तर — जीएल मेघानी घर से राधा कृष्णा मंदिर तक।
 पूर्व — राधा कृष्णा मंदिर से शिवनाथ यादव घर तक।
 दक्षिण — शिवनाथ यादव घर से दिगंबर ठाकुर घर तक।
 पश्चिम — दिगंबर ठाकुर घर से जीएल मेघानी घर तक।

वार्ड न. 11 (पं.दीनदयाल वार्ड)

- उत्तर — अम्बेडकर कॉम्प्लेक्स से रेलवे स्टेशन होते हुए बंटी सोनी घर तक।
 पूर्व — बंटी सोनी घर से गज्जू महावीर घर होते हुए अशोक एरन घर तक।
 दक्षिण — अशोक एरन घर से श्याम क्लाथ होते हुए पोस्ट आफिस रोड से लालबहादुर शास्त्री स्कूल तक।
 पश्चिम — लालबहादुर शास्त्री स्कूल से अम्बेडकर कॉम्प्लेक्स तक।

वार्ड न. 12 (संत कंवर राम वार्ड)

- उत्तर — पूनम चंद अग्रवाल से दीपक स्टील होते हुए बघेल मोहल्ला तक।
 पूर्व — बघेल मोहल्ला से अनिल लहरे होते हुए श्रीचंद रावलानी घर तक।
 दक्षिण — श्रीचंद रावलानी घर से जैनमेडिकल तक।
 पश्चिम — जैनमेडिकल से पूनम चंद अग्रवाल घर तक।

वार्ड न. 13 (रानी सती वार्ड)

- उत्तर — रामनाथ भीमसेन घर से मन्ना सिन्धी घर तक।
 पूर्व — मन्ना सिन्धी घर से शशि साहू चुड़डमल से दौलत ठाकुर मुकेश मित्तल होते हुए सुरेश आटा चक्की तक।
 दक्षिण — सुरेश आटा चक्की से कैलाश शर्मा मार्ग होते हुए धनीराम गोयल से संजय कबुलपुरिया घर तक।
 पश्चिम — संजय कबुलपुरिया घर से रामनाथ भीमसेन घर तक।

वार्ड न. 14 (महाराणा प्रताप वार्ड)

- उत्तर — ख्यालदास सिन्धी घर से बिरजा सिन्धी, सिन्धी कॉलोनी होते हुए शर्मा कॉलोनी तक।
 पूर्व — शर्मा कॉलोनी से दीपक घर तक।
 दक्षिण — दीपक घर से प्रेम कॉलोनी तक।
 पश्चिम — प्रेम कॉलोनी से ख्यालदास सिन्धी घर तक।

वार्ड न. 15 (छत्रपति शिवाजी वार्ड)

- उत्तर — पुराना एस बी आई बैंक से प्रकाश पेपे होते हुए बाबूलाल अग्रवाल घर तक।
 पूर्व — बाबूलाल अग्रवाल घर से रवि यादव घर तक।
 दक्षिण — रवि यादव घर से जय अम्बे ट्रेडर्स तक।
 पश्चिम — जय अम्बे ट्रेडर्स से सुभाष शर्मा घर होते हुए पुराना एस बी आई तक।

वार्ड न. 16 (महाराजा अग्रसेन वार्ड)

- उत्तर — लायंस क्लब भवन से माधवप्रिया रेस्टोरेंट तक।
 पूर्व — माधवप्रिया रेस्टोरेंट से चंद्रा होटल तक।
 दक्षिण — चंद्रा होटल से बंधवा तालाब तक।
 पश्चिम — बंधवा तालाब से गजानंद पुरम होते हुए लायंस क्लब भवन तक।

वार्ड न. 17 (ठाकुरदेव वार्ड)

- उत्तर — बसंती राईस मील से गोविन्द अग्रवाल घर होते हुए फेटकन केवट घर तक।
 पूर्व — फेटकन केवट से राजू सारथी घर होते हुए मांगेशर्मा घर तक।
 दक्षिण — मांगेशर्मा घर से घनश्याम राठौर घर तक।
 पश्चिम — घनश्याम राठौर घर से बसंती राईस मील तक।

वार्ड न. 18 (महात्मा गांधी वार्ड)

- उत्तर — मोती गबेल घर से हंसा मनी राठौर प्लाट होते हुए FCI मोहल्ला संतोषी निराला घर तक।
 पूर्व — संतोषी निराला घर से एम.जी. कॉलेज तक।
 दक्षिण — एम.जी. कॉलेज से दूजे राम साहू घर होते हुए अयोध्या गबेल घर तक।
 पश्चिम — अयोध्या गबेल घर से रायगढ़ चौक होते हुए मोती गबेल घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 1-103/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-103/2024/18, दिनांक 31-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 31st July 2024

NOTIFICATION

No. F 1-103/2024/18.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Municipal Council Kharsia, Dist- Raigarh as per schedule given Below :-

1. Divides Municipal Council Kharsia into 18 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

Ward No.	Name of Ward
01	VEER SAVARKAR WARD
02	MADAN MOHAN GOUSHALA WARD
03	JHANSI KI RANI LAXMI BAI WARD
04	DR. BHIM RAO AMBEDKAR WARD
05	SHAHEED BHAGAT SINGH WARD
06	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD
07	SANT KABEER WARD
08	CHANDAN TAL RAM MANDIR WARD
09	DR. SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD
10	SHYAM MANDIR WARD
11	PT. DINDAYAL WARD
12	SANT KAWAR RAM WARD
13	RANI SATI WARD
14	MAHARANA PRATAP WARD
15	CHHATRAPATI SHIVAJI WARD
16	MAHARAJA AGRASEN WARD
17	THAKUR DEO WARD
18	MAHATMA GANDHI WARD

Description of Ward Limits Of Kharsia Municipal Council

WARD NO - 01 (VEER SAVARKAR WARD)

NORTH - FROM GOUSHALA TALAAB SHIV MANDIR TO LOKESHWAR BHARADWAJ HOUSE.
 EAST - FROM LOKESHWAR BHARADWAJ HOUSE TO GOPRAM YADAV HOUSE.
 SOUTH - FROM GOPRAM YADAV HOUSE TO SANTOSH SHARMA HOUSE.
 WEST - FROM SANTOSH SHARMA HOUSE TO GOUSHALA TALAB SHIV MANDIR VIA GANESHRAM AGRAWAL HOUSE.

WARD NO – 02 (MADAN MOHAN GOUSHALA WARD)

- NORTH - FROM RAM MANDIR TO GOUSHALA VIA KURMI PARA.
 EAST - FROM GOUSHALA TO RAMESHWAR SARTHI HOUSE VIA KANKU BAAI DHARAMSHALA .
 SOUTH - FROM RAMESHWAR SARTHI HOUSE TO TUHIRAM HOUSE VIA STATION PAARA.
 WEST - FROM TUHIRAM HOUSE TO RAM MANDIR VIA PRABHAT LAAT HOUSE.

WARD NO – 03 (JHANSI KI RANI LAXMI BAI WARD)

- NORTH - FROM NAINA VAISHNAV HOUSE TO RADHE VERMA HOUSE VIA ISHWAR RATHORE HOUSE.
 EAST - FROM RADHE VERMA HOUSE TO NAGA MANDIR.
 SOUTH - FROM NAGA MANDIR TO CHAMELI BARETH HOUSE VIA GOVARDHAN YADAV HOUSE.
 WEST - FROM CHAMELI BARETH HOUSE TO NAINA VAISHNAV HOUSE VIA VISHNU BAIRAGI HOUSE AND ASGAR ANSARI HOUSE.

WARD NO – 04 (DR. BHIM RAO AMBEDKAR WARD)

- NORTH - FROM NANDLAL SAHISH HOUSE TO LEKHRAM KURRE HOUSE.
 EAST - FROM LEKHRAM KURRE HOUSE TO ARTI PANDEY HOUSE VIA DHARMENDRA SAHU HOUSE.
 SOUTH - FROM ARTI PANDEY HOUSE TO KANHAIYA SAHU HOUSE VIA LEELA SARTHI HOUSE.
 WEST - FROM KANHAIYA SAHU HOUSE TO NANDLAL SAHISH HOUSE VIA MAKARU BHAWAN.

WARD NO – 05 (SHAHEED BHAGAT SINGH WARD)

- NORTH - FROM SULOCHNA DENIAL HOUSE TO SUNIL BAGHEL HOUSE.
 EAST - FROM SUNIL BAGHEL HOUSE TO SHEETLA MANDIR BEHIND SAWARIYA COLONY VIA ANWAR MASTER HOUSE.,
 SOUTH - FROM SHEETLA MANDIR TO MANJIT KOMAL HOUSE VIA MAIN ROAD.
 WEST - FROM MANJIT KOMAL HOUSE TO SULOCHNA DENIAL HOUSE VIA JAWAHAR COLONY.

WARD NO – 06 (CHANDRASHEKHAR AZAD WARD)

- NORTH - FROM BOUNDARY WALL OF OIL MILL TO GODOWN BESIDE S.D.M. HOUSE.
 EAST - FROM GODOWN BESIDE S.D.M. HOUSE TO DEV STAMBH CHABUTARA VIA ADARSH SCHOOL.
 SOUTH - FROM DEV STAMBH CHABUTARA TO SADHNA SAHU HOUSE VIA RAMESHWAR RATHORE HOUSE.
 WEST - FROM SADHNA SAHU HOUSE TO BOUNDARY WALL OF OIL MILL VIA RAMBHA TRADERS.

WARD NO – 07 (SANT KABIR WARD)

- NORTH - FROM TALWA TALAB TO SHASHI RATHORE HOUSE VIA MATKHANWA TALAB.
 EAST - FROM SHASHI RATHORE HOUSE TO JEEVAN LAL RATHORE HOUSE.
 SOUTH - FROM JEEVAN LAL RATHORE HOUSE TO VIJAY RATHORE HOUSE (HOLLAR).
 WEST - FROM VIJAY RATHORE (HOLLAR) HOUSE TO TALWA TALAB VIA MANGAL BAZAR.

WARD NO – 08 (CHANDAN TAL RAM MANDIR WARD)

- NORTH - FROM MONU RATHORE HOUSE TO ATAL AWAS.
 EAST - FROM ATAL AWAS TO GEND LAL DUBEY HOUSE.
 SOUTH - FROM GEND LAL DUBEY HOUSE TO RATHORE CHOWK VIA TURRI BHATHA.
 WEST - FROM RATHORE CHOWK TO MONU RATHORE HOUSE.

WARD NO – 09 (DR. SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD)

- NORTH - FROM BHARAT YADAV HOUSE TO CHANDRIKA CHOUHAN HOUSE.

- EAST - FROM CHANDRIKA CHOUHAN HOUSE TO SANTOSH SIDAR HOUSE VIA BAJRANG BALI MANDIR.
- SOUTH - FROM SANTOSH SIDAR HOUSE TO ASHOK RATHORE HOUSE.
- WEST - FROM ASHOK RATHORE HOUSE TO BHARAT YADAV HOUSE.

WARD NO – 10 (SHYAM MANDIR WARD)

- NORTH - FROM G.L. MEGHANI HOUSE TO RADHA KRISHNA MANDIR.
- EAST - FROM RADHA KRISHNA MANDIR TO SHIVNATH YADAV HOUSE.
- SOUTH - FROM SHIVNATH YADAV HOUSE TO DIGAMBAR THAKUR HOUSE.
- WEST - FROM DIGAMBAR THAKUR HOUSE TO G.L. MEGHANI HOUSE.

WARD NO – 11 (PT. DINDAYAL WARD)

- NORTH - FROM AMBEDKAR COMPLEX TO BUNTY SONI HOUSE VIA RAILWAY STATION.
- EAST - FROM BUNTY SONI HOUSE TO ASHOK ERAN HOUSE VIA GAJJU MAHAVIR HOUSE.
- SOUTH - FROM ASHOK ERAN HOUSE TO LAL BAHADUR SHASTRI SCHOOL VIA SHYAM CLOTH, POST OFFICE ROAD.
- WEST - FROM LAL BAHADUR SHASTRI SCHOOL TO AMBEDKAR COMPLEX.

WARD NO – 12 (SANT KANWAR RAM WARD)

- NORTH - FROM POONAM CHAND AGRAWAL HOUSE TO BAGHEL MOHALLA VIA DEEPAK INDUSTRIES.
- EAST - FROM BAGHEL MOHALLA TO SHRI CHAND RAWLANI HOUSE VIA ANIL LAHARE HOUSE.
- SOUTH - FROM SHRI CHAND RAWLANI HOUSE TO JAIN MEDICAL.
- WEST - FROM JAIN MEDICAL TO POONAM CHAND AGRAWAL HOUSE.

WARD NO – 13 (RANI SATI WARD)

- NORTH - FROM RAMNATH BHEEMSEN HOUSE TO MANNA SINDHI HOUSE.
- EAST - FROM MANNA SINDHI HOUSE TO SURESH AATA CHAKKI VIA SHASHI SAHU HOUSE, CHUHADMAL TO DAULAT THAKUR, MUKESH MITTAL.
- SOUTH - FROM SURESH AATA CHAKKI TO SANJAY KABULPURIYA HOUSE VIA KAILASH SHARMA MARG, DHANI RAM GOYAL.
- WEST - FROM SANJAY KABULPURIYA HOUSE TO RAMNATH BHEEMSEN HOUSE.

WARD NO – 14 (MAHARANA PRATAP WARD)

- NORTH - FROM KHAYAL DAS SINDHI HOUSE TO SHARMA COLONY VIA BIRJA SINDHI, SINDHI COLONY.
- EAST - FROM SHARMA COLONY TO DEEPAK HOUSE.
- SOUTH - FROM DEEPAK HOUSE TO PREM COLONY.
- WEST - FROM PREM COLONY TO KHAYAL DAS SINDHI HOUSE.

WARD NO – 15 (CHHATRAPATI SHIVAJI WARD)

- NORTH - FROM OLD SBI TO BABULAAL AGRAWAL HOUSE VIA PRAKASH PEPE HOUSE.
- EAST - FROM BABULAAL AGRAWAL HOUSE TO RAVI YADAV HOUSE.
- SOUTH - FROM RAVI YADAV HOUSE TO JAI AMBE TRADERS.
- WEST - FROM JAI AMBE TRADERS TO OLD SBI VIA SUBHASH SHARMA HOUSE.

WARD NO – 16 (MAHARAJA AGRASEN WARD)

- NORTH - FROM LIONS CLUB BUILDING TO MADHAV PRIYA RESTAURENT.
- EAST - FROM MADHAV PRIYA RESTAURENT TO CHANDRA HOTEL.
- SOUTH - FROM CHANDRA HOTEL TO BANDHUA TALAAB.
- WEST - FROM BANDHUA TALAAB TO LIONS CLUB BUILDING VIA GAJANANADPURAM COLONY.

WARD NO – 17 (THAKUR DEO WARD)

- NORTH - FROM BASANTI RICE MILL TO FETKAN KENVAT HOUSE VIA GOVIND AGRAWAL HOUSE.
EAST - FROM FETKAN KENVAT HOUSE TO MANGE SHARMA HOUSE VIA RAJU SARTHI HOUSE.
SOUTH - FROM MANGE SHARMA HOUSE TO GHANSHYAM RATHORE HOUSE.
WEST - FROM GHANSHYAM RATHORE HOUSE TO BASANTI RICE MILL.

WARD NO – 18 (MAHATMA GANDHI WARD)

- NORTH - FROM MOTI GABEL HOUSE TO SANTOSHI NIRALA HOUSE FCI MOHLLA VIA HANSAMANI RATHORE'S PLOT.
EAST - FROM SANTOSHI NIRALA HOUSE TO M.G. COLLEGE.
SOUTH - FROM M.G. COLLEGE TO AYODHYA GABEL HOUSE VIA DUJERAM SAHU HOUSE.
WEST - FROM AYODHYA GABEL HOUSE TO MOTI GABEL HOUSE VIA RAIGARH CHOWK.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.